

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 जुलाई 2014—आषाढ़ 19, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ-65-01-2013-तीन-नपा-336.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2013-14 (उत्तरार्द्ध) में दिनांक 10 जून, 2014 को अध्यक्ष/पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं:—

स. क्र.	नगरपालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में	शब्दों में	(7)
1	नगरपरिषद्, मऊगंज जिला-रीवा.	अध्यक्ष	—	—	श्री अजय मिश्र “रज्जू भाई” भारतीय जनता पार्टी
2	नगरपालिक निगम, उज्जैन जिला-उज्जैन.	पार्षद	32	बत्तीस	श्री अर्जुन प्रेम कुमार यादव इंडियन नेशनल काँग्रेस
3	नगरपालिका परिषद् अम्बाह, जिला-मुरैना	पार्षद	08	आठ	श्रीमती राजाबेटी पत्नी स्व. श्री ज्वालाप्रसाद
4	नगर परिषद्, जौरा जिला-मुरैना.	पार्षद	03	तीन	उर्मिला सतीश राठौर भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	नगर परिषद्, झुण्डपुरा जिला-मुरैना.	पार्षद	14	चौदह	दिवाईलाल रावत पिता श्री किसुन	निर्दलीय
6	नगरपालिका परिषद्, सारनी, जिला-बैतूल.	पार्षद	26	छब्बीस	माया रामकिशोर बामने	भारतीय जनता पार्टी
7	नगरपालिका परिषद्, पन्ना, जिला-पन्ना.	पार्षद	11	ग्यारह	श्री बृजेन्द्र तनय भगवानदास मिश्रा	भारतीय जनता पार्टी
8	नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, जिला होशंगाबाद.	पार्षद	03	तीन	महेश कुमार मालवीया	भारतीय जनता पार्टी
9	नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला-जबलपुर.	पार्षद	05	पांच	मुजाहिद उल्ला उर्फ अरशद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
10	नगरपालिका परिषद्, राघौगढ़- विजयपुर जिला-गुना.	पार्षद	15	पन्द्रह	घांसीलाल मीना	भारतीय जनता पार्टी
11	नगर परिषद्, ओरछा जिला-टीकमगढ़.	पार्षद	07	सात	बृजेश परिहार	भारतीय जनता पार्टी
12	नगर परिषद्, ओरछा जिला-टीकमगढ़.	पार्षद	12	बारह	कुशवाहा मंगल	काँग्रेस
13	नगर परिषद्, लिधौरा, जिला-टीकमगढ़.	पार्षद	15	पन्द्रह	नितेन्द्र पति कुन्जबिहारी शर्मा	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.